

अमर उजाला

दुकान से ही बेची जा रही थी नकली शराब, सेल्समैन गिरफ्तार

लखनऊ ब्यूरो Updated Mon, 15 Jul 2019 11:18 PM IST

Home > Uttar Pradesh > Ambedkar Nagar > Duplicate Wine Sold In Government Shop



अंबेडकरनगर के भीटी में अवैध शराब के साथ पुलिस पकड़ में आया आरोपी। - फोटो : AMBEDKAR NAGAR

अंबेडकरनगर। भीटी में आबकारी अफसरों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार रात शराब की एक दुकान में छापा मारकर 175 शीशी नकली शराब बरामद किया है। मामले में सेल्समैन के विरुद्ध केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में दुकान को सीज कर दिया।

भीटी थाने के उपनिरीक्षक मनीष कुमार सिंह ने बताया कि वे रविवार शाम पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर निकले थे। इसी बीच मुखबिर से एक दुकान पर नकली शराब बेचने की सूचना मिली। इस पर उन्होंने आबकारी निरीक्षक प्रजा मिश्रा को फोन पर मामले से अवगत कराया। कुछ देर बाद आबकारी निरीक्षक के साथ वे अन्य पुलिस कर्मियों को लेकर भीटी महरूआ मार्ग पर अढ़नपुर स्थित दुकान पर पहुंच गए। तलाशी के दौरान यहां से चार गत्ते में कुल 175 शीशी नकली शराब बरामद कर ली गई। बताया कि शराब की शीशी पर लेबल कुछ और था तथा ढक्कन पर किसी और कंपनी का लेबल लगा हुआ था। इस बाबत जब सेल्समैन से जानकारी की गई तो उसके द्वारा कोई उचित जवाब नहीं दिया जा सका। उसे गिरफ्तार कर थाने में लाया गया।

निरीक्षक ने तहरीर देकर सेल्समैन प्रमोद कुमार निवासी सिद्धीगनेशपुर थाना कूड़ेभार जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए आबकारी निरीक्षक के आदेश पर दुकान को सीज कर दिया। सोमवार सुबह गिरफ्तार सेल्समैन को पुलिस ने जेल भेज दिया गया। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि नकली शराब बेचे जाने की सूचना पर छापेमारी कर नकली शराब बरामद किया गया है। साथ ही कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज कर दिया गया है। इस मौके पर उपनिरीक्षक नरसिंह व श्यामबदन, कांस्टेबल प्रेमप्रकाश, सुनील कुमार व गौरी शंकर मौजूद रहे।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/ambekar-nagar/duplicate-wine-sold-in-goverment-shop-ambekar-nagar-news-lko470899248#>